



द बिशप्स को-एड. स्कूल, उंड्री
(अंतर सदन हिन्दी वाग्मिता प्रतियोगिता)

विवरण - २०२२ - २०२३

कक्षा- ६,७ एवं ८



“गर्व हमें हैं हिन्दी पर,शान हमारी हिन्दी हैं
कहते-सुनते हिन्दी हम,पहचान हमारी हिन्दी हैं”

बिशप्स को-एड. स्कूल,उंड्री में प्रति वर्ष प्रत्येक कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया जाता हैं। विद्यालय में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता हैं,जैसे हिन्दी दिवस,हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा हिन्दी वाग्मिता प्रतियोगिता।

इस बार विद्यालय में अंतर सदनीय हिन्दी वाग्मिता प्रतियोगिता कक्षा ६ ,७,एवं ८ का आयोजन माननीय मुख्याध्यापक श्रीमान रसल जी,प्राथमिक विभाग की पर्यवेक्षिका श्रीमती मेलिसा फर्नाडिस जी तथा संयोजिका श्रीमती खंडेलवाल जी की उपस्थिति में १६ सितंबर को किया गया।



निर्णय संबंधी मापदंड इस प्रकार रहे :

- * भाषा की स्पष्टता
- * उच्चारण
- * शब्दों को बोलने का ढंग
- * काव्य/कथा/गद्य चयन
- * प्रस्तुतीकरण
- * भावाभिव्यक्ति

वाग्मिता को तीन चरणों में विभाजित किया था। काव्य वचन ,कथा वचन तथा गद्य वचन।

वाग्मिता का शुभारंभ हमारे माननीय मुख्याध्यापक श्रीमान राल्फ रसल जी ने प्रार्थना से किया । तत्पश्चात निर्णायक गण श्रीमती हेमलता शर्मा जी तथा श्रीमती सुषमा ठकुरेला जी का परिचय तथा स्वागत आर्या शाह कक्षा ८ की छात्रा ने किया। प्रतियोगिता का संचालन मेनोर्का मिश्रा तथा नीरल भंडारी द्वारा किया गया।





निर्णायक गण



श्रीमती सुषमा ठकुरेला

श्रीमती सुषमा ठकुरेला जी ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा शिक्षा क्षेत्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हैं। श्रीमती ठकुरेला जी को अध्यापन का १५ वर्षों का अनुभव हैं तथा वर्तमान समय में वे केलम विद्यालय में हिन्दी की अध्यापिका हैं।



श्रीमती हेमलता शर्मा

श्रीमती हेमलता शर्मा जी को साहित्य में रुचि है। श्रीमती शर्मा जी द बिशप्स को-एड. स्कूल, उंडी के प्राथमिक विभाग में हिन्दी की अध्यापिका हैं।

प्रत्येक प्रतियोगी ने उत्साहपूर्वक प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण किया। निर्णायक गणों ने छात्रों का जोश तथा उत्साह देखकर उन्हें अपने अनमोल विचारों से सराहा।

परिणाम की घोषणा माननीय मुख्याध्यापक जी द्वारा इस प्रकार हुई।

कक्षा	चरण	विजेता का नाम	सदन
६	काव्य वाचन	कविन चतुर्वेदी	'ओ'कानर सदन
७	कथा वाचन	पेहेल वाधवानी	विंटल सदन
८	गद्य वाचन	ओजस माली	यंग सदन





सदनीय परिणाम

सदन	स्थान
'ओ'कानर सदन	प्रथम
विंटल सदन	द्वितीय
यंग सदन	तृतीय
रे सदन	चतुर्थ

अंत में कक्षा ८ के छात्र तन्मय थोरात ने इस प्रतियोगिता का आभार प्रकट किया ।





नमिता जोएल